



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012025-259830
CG-DL-E-01012025-259830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1073]
No. 1073]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

फा.सं. 18-15/3820-आईएनसी.-समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य उपचर्या परिषद् ने सोनिया गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नं. 7, राज कॉम्प्लेक्स, संगतारसवाड़ी मेन रोड, गुलबर्गा, जिला गुलबर्गा-585104 (कर्नाटक) ("कॉलेज") को जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की हुई है।

हालांकि, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 13(1) के तहत, भारतीय उपचर्या परिषद् ("परिषद्") को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है। लेकिन, जब परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षक कॉलेज पहुंचे, तो उन्हें वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई।

जबकि, निरीक्षण से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए कॉलेज को नोटिस क्रमांक 18-15/3820-आईएनसी दिनांक 06.05.2023 जारी किया गया था। जवाब देने के लिए कॉलेज को 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, कॉलेज उक्त कारण बताओ नोटिस पर कोई जवाब/टिप्पणी भेजने में विफल रहा है। इसके बाद, नोटिस क्रमांक 18-15/3820-आईएनसी (47399) दिनांक 26.12.2023 प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक राज्य सरकार को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें कॉलेज द्वारा परिषद् को वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करने के मुद्दे पर उनकी टिप्पणी/राय मांगी गई थी। लेकिन, परिषद् को कोई टिप्पणी नहीं मिली।

जबकि, परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त मामले पर समग्रता से विचार किया गया था। किसी भी कॉलेज द्वारा वैधानिक निरीक्षण से इनकार करने के मामले में, यह माना जाएगा कि ऐसा संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों और पाठ्यक्रम का पालन नहीं कर रहा है और नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए **उपयुक्त नहीं** है।

अतः, धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक **21.05.2024** से **सोनिया गांधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नं. 7, राज कॉम्प्लेक्स, संगतारसवाड़ी मेन रोड, गुलबर्गा, जिला गुलबर्गा-585104 (कर्नाटक)** से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल **कर्नाटक राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./835/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F.No. 18-15/3820-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Karnataka and Karnataka State nursing Council had granted recognition to **Sonia Gandhi School of Nursing** situated at **No 7 Raj Complex Sangtaraswadi Main Road, Gulbarga, Distt. Gulbarga 585104, Karnataka** ("College") for running GNM course.

Whereas, in terms of Section 13 (1) of the Indian Nursing Council Act ("Act"), the Indian Nursing Council ("Council") has the power to inspect any Institution recognized as a training institution by State authorities. However, when the inspectors appointed by the Council reached the College, they were not allowed to carry out the statutory inspections.

Whereas, notice no. 18-15/3820-INC dated 16.05.2023 was issued to the College seeking their explanation for refusal of inspection. That 15 days were given to the College to respond. However, the College has failed to send any reply/ comments to the said show cause notice. Further, a notice no. 18-15/3820-INC (47399) dated 26.12.2023 was issued to the Principal Secretary, Health and family welfare department (state government of Karnataka) asking them for their remarks/ comments on the issue of refusal by the College to allow the Council to conduct statutory inspection. However, no comments were received by the Council.

Whereas, the Executive Committee of the Council had considered the aforesaid matter in its entirety. In cases of refusal of statutory inspection by any college, it shall be assumed that such institution does not follow the regulations and syllabus prescribed by the Council and is not suitable to grant training in nursing field.

Hence, therefore, the Council in exercise of its power conferred under Section 14 (3)-(b) of the Act declares that with effect from 21.05.2024, any person obtaining a qualification of GNM from **Sonia Gandhi school of Nursing** situated at **No 7 Raj Complex Sangtaraswadi Main Road, Gulbarga, Distt. Gulbarga 585104, Karnataka** shall be entitled to be registered only in the State of Karnataka.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Etxy./835/2024-25]